



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 1980/चैत्र 27, 1902

No. 68]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 1980/CHAITRA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० : 11—आई०टी०सी० (पी०एन०)/80

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1980

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय : आर०ई०पी० लाइसेंसों के मद्दे कर-मुक्त आयात ।

मिसिल सं० 1/45-ए/आर०ई०पी०/74-ई०पी०सी० भा० 1.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 9 आई०टी०सी० (पी०एन०)/80, दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1980—मार्च 1981 के लिए आयात-नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. उक्त आयात-नीति की कंडिका 163 आर०ई०पी० लाइसेंसों के मद्दे कर-मुक्त आयातों से सम्बद्ध नई योजना के बारे में बताती है । योजना के विवरण और अन्य बातें इस सार्वजनिक सूचना के अनुबंध में निहित हैं जोकि अप्रैल 1980—मार्च 1981 के लिए आयात-नीति के परिशिष्ट 29 में समाविष्ट की गई हैं ।

सी० वैकटरामन, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

परिशिष्ट-29

आर० ई०पी० लाइसेंसों के मद्दे कर मुक्त आयात

- विशिष्ट उद्देश्यों के नियमों पर जारी किए गए प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के मद्दे कर-मुक्त आयात करने के लिए एक नई योजना का समावेश किया गया है । इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 74/एफ० नं० 602/2/79/डी०बी०के० दिनांक 15-4-80 की एक प्रति इस परिशिष्ट के अनुबंध 1 में दी गई है ।
- निर्यात किए जाने वाले उत्पाद और उनमें से प्रत्येक के मद्दे आयात करने के लिए अनुमित मब प्रत्येक अनुमित मब की मात्रा और मूल्य के अनुसार आयात प्रतिपूर्ति की प्रतिशतता इस परिशिष्ट के अनुबंध 2 में दर्शाई गई है ।
- 1-4-80 से किए गए निर्यातों पर जारी किए गए आर०ई०पी० लाइसेंसों पर यह योजना लागू होगी जिसके मद्दे निर्यातकों ने परिशिष्ट 19 के अनुसार न तो कर से छूट का लाभ प्राप्त किया हो और न ही कर वापसी का ।

4. इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए आर०ई०पी० लाइसेंसों पर "कर मुक्त आयात प्रतिपूर्ति" अंकित होगा। ऐसे लाइसेंस हस्तान्तरण नहीं किए जाएंगे। उन पर "वास्तविक उपयोग" की शर्त लागू होगी। आयातित माल लाइसेंस धारक के कारखाने में उत्पादन के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा। इस योजना का लाभ विनिर्माता नियंत्रकों से भिन्न पंजीकृत नियंत्रकों को उपलब्ध नहीं होगा।
5. इस योजना के अन्तर्गत आर०ई०पी० लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र सम्बंधित लाइसेंस प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। आवेदन पत्र के शीर्ष भाग पर "कर मुक्त आयात योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र" शब्द अंकित होने चाहिए।
6. इस योजना के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस मूल्य और मात्रा दोनों के अधीन सीमाकारी तत्त्व होंगे।

परिशिष्ट 29 का अनुबंध-1

वित्त मंत्रालय

(वित्त विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर विभाग)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1980

अधिसूचना

कस्टम्स

सं० का० ति० कस्टम्स एक्ट, 1962 (1962 का 52) के खंड 25 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती हुई कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा इस अधिसूचना में संलग्न सारणी के कालम (2) में निर्दिष्ट सामग्री पर सीमा-शुल्क से और सारणी के कालम 4 में निर्दिष्ट सीमा तक उस सामग्री पर उगाहे जाने योग्य अनिश्चित शुल्क से उक्त सारणी के कालम (5) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है जबकि ऐसी सामग्री का उक्त सारणी के कालम (3) में समक्ष प्रविष्टि माल के निर्यात के मद्दे आयात (निर्यात) आवेदन, 1965 के अन्तर्गत जारी किए गए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस की शर्तों के अनुसार भारत में आयात किया गया हो।

| क्रम सं० | सामग्री का विवरण | निर्यात माल का विवरण | छूट की सीमा | छूट के लिए शर्तें |
|----------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जंगाबरोधी इस्पात की चद्दें या पट्टियां (अचुम्बकीय) | जंगाबरोधी इस्पात के बर्तन, सिन्क और अचुम्बकीय जंगाबरोधी इस्पात की चद्दें या पट्टियों से बने अस्पताल के बर्तन | उस सामग्री पर उगाहे जाने योग्य पूर्ण सीमाशुल्क जो कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है और उक्त अधिनियम के खंड-3 के अधीन उक्त सामग्री पर उगाहे जाने योग्य कुल अनिश्चित कर । | उक्त आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस पर "कर-मुक्त आयात प्रतिपूर्ति" का पृष्ठांकन किया गया हो और उक्त लाइसेंसों को जारी करने वाला प्राधिकरण उक्त लाइसेंस के अधीन आयात के लिए अनुमित कालम (2) में निर्दिष्ट सामग्री की मात्रा और मूल्य निर्दिष्ट करता हो और लाइसेंस "वास्तविक उपयोग" शर्त के भी अधीन हो । |
| 2. | पीतल की कतरन | पीतल के आर्टबेयर | | |
| 3. | जस्ता | जस्ताइत इस्पात की पाइप, ट्यूब, तार और चद्दें चाहे नलीदार हों या नहीं । | | |

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1981 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना सं० 74 मिसिल सं० 602/2/79-डी०बी० के० से जारी]

हस्ताक्षरित/-

महेश कुमार, अवर सचिव

परिशिष्ट 29 के लिए अनुबंध-2

आयात प्रतिपूर्ति के मद्दे कर-मुक्त आयातों की योजना

| क्रम सं० | निर्यात उत्पाद | आयात के लिए स्वीकृत मद्दे | आयातक के लिए स्वीकृत की जाने वाली मात्रा | आयात प्रतिपूर्ति प्रतिशतता |
|----------|--|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | जंगाबरोधी इस्पात बर्तन, सिन्क और जंगाबरोधी इस्पात शीट्स/स्ट्रिप्स से निर्मित अस्पताल सामान | जंगाबरोधी इस्पात शीट्स/स्ट्रिप्स और सैनिटिक) | निर्यातित उत्पाद के 1 किलो ग्राम के मद्दे 1-25 किलोग्राम | 50% |
| 2. | पीतल आर्टबेयर | पीतल कतरन | निर्यातित उत्पाद के 1 किलोग्राम के मद्दे 1.01 किलोग्राम | 40% |
| 3. | जस्ताइत इस्पात पाइप, तार और शीट चाहे बड़े कार्बोटाइड हों या नहीं | जस्ता | निर्यातित उत्पाद के 1 किलोग्राम के लिए 1.07 किलोग्राम | 10% |

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE No. 110—ITC(PN)/80

New Delhi, the 15th April, 1980

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Duty-free imports against REP licences.

[Issued from File No. 1/45-A/REP/74-EPC.Vol. I].—Attention is invited to the Import Policy for April, 1980-March, 1981 published under the Department of Commerce Public Notice No. 9—ITC (PN)/80 dated the 15th April, 1980.

2. Paragraph 163 of the said Import Policy refers to the new scheme pertaining to duty-free imports against REP licences. The details and other conditions of the scheme are contained in the Annexure to this Public Notice which has been incorporated as Appendix 29 to the Import Policy for April, 1980-March, 1981.

C. VENKATARAMAN,
Chief Controller of Imports and Exports.

APPENDIX 29

Duty-free Imports against REP licences.

1. A new scheme has been introduced to provide duty-free imports of raw materials against REP licences issued on the exports of specified products. In this connection a copy of the Department of Revenue Notification No. 74/F. No. 602/2/79-DBK dated 15-4-1980 is given in Annexure I to this Appendix.

2. The export products and against each of them the items allowed to be imported, the quantity of each item allowed and the import replenishment percentage in terms of value, are indicated in Annexure II to this Appendix.

3. The scheme will apply to REP licences issued on exports made from 1-4-1980 against which the exporter has neither claimed the benefit of duty exemption as per Appendix 19 nor duty-drawback.

4. REP licences issued under the scheme will be marked "Duty Free Import Replenishment". Such licences shall not be transferable. They will be subject to "Actual User" condition. The imported materials shall be used for production only in the licence holder's factory. The benefit of this scheme will not be available to Registered Exporters other than manufacturer exporters.

5. Applications for grant of REP licences under this scheme should be made to the licensing authorities concerned. At the top of the application, the words "Application under Duty Free Import Scheme" should be written.

6. Import licences issued under the scheme will be subject to both value and quantity as limiting factors.

ANNEXURE I TO APPENDIX 29

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Indirect Taxes Division

New Delhi, the 15th April, 1980

NOTIFICATION

Customs

G.S.R.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the materials specified in column (2) of the Table hereto annexed, when imported into India in accordance with the terms and conditions of an import replenishment licence issued under the Imports (Control) Order, 1955, against export of the goods specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, from the duty of customs and the additional duty leviable thereon to the extent indicated in column (4) thereof, subject to the conditions specified in column (5) of the said Table.

TABLE

| Sl. Description of materials No. | Description of Export goods | Extent of exemption | Conditions for exemption. |
|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Stainless Steel Sheets or Strips (Non-Magnetic) | Stainless Steel utensils, Sinks, and Hospital Wares made of non-magnetic stainless steel sheets or strips. | Whole of the duty of customs leviable thereon [which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and the whole of the additional duty leviable thereon under Section 3 of the said Act. | The said import replenishment licence is endorsed "Duty Free Import Replenishment" and the authority issuing the said licence specifies the quantity and the value of the materials, indicated in column (2), allowed to be imported under the said licence and the said licence is also subject to "Actual User" condition. |
| 2. Brass Scrap. | Brass Artware. | | |
| 3. Zinc. | Galvanised Steel pipes, tubes, wires and sheets, whether corrugated or not. | | |

2. This Notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1981.

[Notification No. 74/F.No.602/2/79-DBK]

MAHESH KUMAR, Under Secy.

ANNEXURE II TO APPENDIX 29

Scheme of Duty Free Imports against Import replenishment licences.

| Sl. No. | Export product | Import items to be allowed | Quantity to be allowed for import | Import replenishment percentage |
|---------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stainless steel utensils, sinks and hospital ware made of non-magnetic SS Sheets/strips. | SS Sheets/Strips (Non-magnetic) | 1.125 kgs. against 1 kgs of export product. | 50% |
| 2. | Brass artware. | Brass Scrap. | 1.01 Kgs. against 1 Kg. of exported product. | 40% |
| 3. | Galvanised Steel pipes, wires and sheets, whether corrugated or not. | Zinc. | 1.07 Kgs. for 1 Kg. of the exported product. | 10% |